

१-2 Sec 3(1)
No. 26, +20
Missing
G.N.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 7, 1979/चैत्र 17, 1901

No. 14]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 7, 1979/CHAITRA 17, 1901

इस भाग में सिर्फ पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-Section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर)
केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम
जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनिषद आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the
Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central
Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1979

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 22nd March, 1979

सां० कां० नि० 501.—केन्द्रीय सरकार, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश 27 के नियम 8-ख के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पूर्ववर्ति विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) की अधिसूचना सं० सां० कां० नि० 1412, तारीख 25 नवम्बर, 1960 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, गुजरात से सम्बद्ध मध 4 में, उक्त न्यायालय से सम्बद्ध उपमध (क) में, स्तम्भ (2) में :—

(क) विद्यमान प्रविष्टि (ii) का लोप किया जाएगा ;

(ख) विद्यमान प्रविष्टि (iii) को प्रविष्टि (ii) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा; और

(ग) इस प्रकार पुनः संख्यांकित प्रविष्टि (ii) के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(iii) कुमारी वासुबेन पोपटलाल शाह,

केन्द्रीय सरकार के अपर स्थायी काउन्सेल।"

[सं० एफ-36(5)/79-न्या०]

एन० सी० गुप्त, अपर विधि सलाहकार

G.S.R. 501.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of rule 8B of order XXVII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Law (Department of Legal Affairs) No. G.S.R. 1412, dated the 25th November, 1960, namely :—

In the schedule to the said notification, in item 4, relating to Gujarat, in sub-item (a) relating to the High Court, in column (2)—

(a) the existing entry (ii) shall be omitted ;

(b) the existing entry (iii) shall be renumbered as entry (ii) ; and

(c) after entry (ii) as so renumbered the following entry shall be inserted, namely :—

"(iii) Miss Vasuben Popatlal Shah,

Additional Central Government Standing Counsel".

[No. F. 36 (5)/79-Judl.]

N. C. GUPTA, Additional Legal Adviser

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1979

सा० का० नि० 502.—केन्द्रीय सरकार, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 (1954 का 28) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय न्यायाधीश यात्रा भत्ते नियम, 1956 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम उच्च न्यायालय न्यायाधीश यात्रा भत्ते (संशोधन) नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उच्च न्यायालय न्यायाधीश यात्रा भत्ते नियम, 1956 में, नियम 2 में, उपनियम (1ग) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(1घ) जब राजस्थान उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश से जोधपुर से जयपुर या जयपुर से जोधपुर दौरे पर जाने की अपेक्षा की जाए तो वह अपनी पत्नी और अश्वित पुत्र या पुत्री को ले जाने के लिए निम्नलिखित पर अपने द्वारा वस्तुतः किया गया खर्च भी पाने का हकदार होगा:—

(i) रेल द्वारा यात्रा के लिए और अश्वित बिस्बे में यात्रा न की जाने की दशा में, बातानुकूलित को छोड़कर, उच्चतम श्रेणी में यात्रा के लिए,

(ii) पब्लिक विमान सेवा से वायु यात्रा के लिए:

परन्तु यह तब जब जोधपुर या जयपुर में दौरे की अवधि एक मास से कम की न हो।”

[संख्या 18/1/79-न्याय]

पी० के० कथपालिया, संयुक्त सचिव

(Department of Justice)

New Delhi, the 23rd March, 1979

G.S.R. 502.—In exercise of the powers conferred by section 24 of the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954 (28 of 1954), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the High Court Judges Travelling Allowance Rules, 1956, namely:—

1. (1) These rules may be called the High Court Judges Travelling Allowance (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the High Court Judges Travelling Allowance Rules, 1956, in rule 2, after sub-rule (1C), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(1D) When a Judge of the High Court of Rajasthan is required to proceed on circuit from Jodhpur to Jaipur or from Jaipur to Jodhpur, he shall also be entitled to the expenditure actually incurred by him for the transfer of his wife and dependent son or daughter—

(i) for journeys by rail and in case not travelling in the reserved compartment, in the highest class of accommodation excluding air-conditioned;

(ii) for journeys by air by a public air transport service:

Provided that the duration of circuit at Jodhpur or Jaipur is not less than one month at a time.”

[No. 18/1/79-Jus.]

P. K. KATHPALIA, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1979

सा० का० नि० 503.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 4/46/56-पी-3, तारीख 23 फरवरी 1959 को अधिकांत करते हुए, गृह मंत्रालय के पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अधीन प्रवर्तित दस्तावेजों के सरकारी परीक्षक के कार्यालय में कतिपय समूह 'क' पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का नाम अनुसंधान और विकास ब्यूरो (प्रवर्तित दस्तावेज सरकारी परीक्षक और प्रवर्तित दस्तावेज सहायक सरकारी परीक्षक) भर्ती नियम, 1979 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो हमसे उपायुक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं और अन्य बातें.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निहंताएं.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो;

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूब हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5 नियम शिथिल करने की शक्ति—जहाँ केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा सध लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6 व्यावृत्ति—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सबध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	बेतनमान	चयन पद अथवा प्रचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1 प्रश्नगत दस्तावेज सरकारी परीक्षक	3	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित	1100-50-1600 रु०	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिचीक्षा की शर्तों, यदि कोई हों	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता		प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेष्ठियां जिनमें प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में सघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10		11	12	13
लागू नहीं होता	बो वर्ग	प्रोन्नति द्वारा		प्रोन्नति — प्रश्नगत दस्तावेज सहायक सरकारी परीक्षक जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 5 वर्ष तक सेवा कर ली है।	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति — (1) सघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष/सचिव— अध्यक्ष, (II) संयुक्त सचिव (पुलिस), गृह मंत्रालय— सचिव, (III) निवेशक पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो —सदस्य।	प्रोन्नति करते समय सघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक।
1	2	3	4	5	6	7
2 प्रश्नगत दस्तावेज सहायक सरकारी परीक्षक	14	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित	700-40-900-द रो - 40-1100-50-1300 रु०।	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवाओं के लिए शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण — आयु-सीमा विनिश्चित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अन्तर्मान और निकोबार द्वीप-समूह तथा लक्ष द्वीप में रहते हैं) आवेदन	आवश्यक :— (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र या भौतिक में मास्टर को उपाधि या समतुल्य। (ii) फोटो चित्रण का 3 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव जिसके अन्तर्गत दस्तावेजों के फोटोचित्रण का कुछ अनुभव भी है। (iii) अग्रम मुद्रण की जानकारी। टिप्पण-1. — अन्यथा सुप्रसिद्ध अभ्यर्थियों की दशा में अर्हताएं सघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी।

6

7

प्राप्त करने के लिए

नियत की गई तारीख दिवस-2 :—

अंतिम तारीख होगी।

अनुभव संबंध अर्हता/अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों के मामलों में उस वक्ता में शिथिल की जा सकती है/हैं, जबकि चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि इनके लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होंगे।

8	9	10	11	12	13
नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : सहायक केन्द्रीय आसूचना अधिकारी श्रेणी-1 (दस्तावेज), जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 6 वर्ष सेवा की हों।	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति : (1) संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष/सचिव—अध्यक्ष ; (2) संयुक्त सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय—सदस्य ; (3) निदेशक, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो—सदस्य।	प्रोन्नति और सीधी भर्ती के समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक।

[सं० 2/22/75-प्रशा०-1/पु०अ०वि० वयु/का० 1]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 21st March, 1979

G.S.R. 503—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Government of India, Ministry of Home Affairs letter no. 4/45/56-P. III dated the 28th February, 1959, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Group A posts in the Offices of Government Examiners of Questioned Documents under the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely :—

1. Short Title and Commencement.—(i) These rules may be called the Bureau of Police Research and Development (Government Examiner of Questioned Documents and Assistant Government Examiner of Questioned Documents) Recruitment Rules, 1979.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of Posts, Classification and Scale of Pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be specified in columns 2 to 4 of the Schedule hereto annexed.

3. Method of Recruitment, Age Limit, Qualifications and Other Matters.—The method of recruitment to the said posts,

age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person—

- who has entered into, or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts :

provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to Relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation in age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruit.	Educational and other qualifications required for recruits	other quali- direct
1	2	3	4	5	6	7	
1. Government Examiner of Questioned Documents.	3	General Central Service Group 'A' Gazetted.	Rs. 1100-50-1600	Selection	Not applicable	Not applicable	
Whether age and Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment—whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.		
8	9	10	11	12	13		
Not applicable	Two years	By promotion	Promotion : Assistant Government Examiner of Questioned Documents with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Group 'A' Departmental Promotion Committee ; 1. Chairman/Member of the Union Public Service Commission—Chairman. 2. Joint Secretary (Police), Ministry of Home Affairs—Member. 3. Director, Bureau of Police Research and Development—Member.	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making promotion.		
1	2	3	4	5	6	7	
2. Assistant Examiner of Questioned Documents.	14	General Central Service Group 'A' Gazetted.	Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300.	Selection	Not exceeding 35 years. (Relaxable for Government Servants). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential : (i) Master's degree in Chemistry or Physics of a recognised University or equivalent. (ii) Three Year's practical experience of photography including some experience of document photography. (iii) Acquaintance with lithographic printing. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The Qualification (s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service	

1	2	3	4	5	6	7
						Commission in case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from those communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
8	9	10	11	12	13	
No	Two years	By promotion failing which by direct recruitment.	Promotion : Assistant Central Intelligence Officer Grade I (Documents) with 6 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Group 'A' Departmental Promotion Committee : 1. Chairman/Member of the Union Public Service Commission—Chairman. 2. Joint Secretary (Police), Ministry of Home Affairs—Member. 3. Director, Bureau of Police Research and Development—Member	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making promotion and direct recruitment.	

[No. 2/22/75-Admn. I/BPR&D/Pers. I]

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1979

सा० का० नि० 504—र.प्र.पनि, संविधान के अनुच्छेद 309 के परमपुत्र द्वारा प्रयुक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ग 3 पर [समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)] भर्ती नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं. अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम समूह 'ग' पर [समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)] भर्ती (प्रथम संशोधन) नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वर्ग 3 पर [समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)] भर्ती नियम, 1962 में "वर्ग 3" शब्द और अंक जहाँ कहीं आए हैं, उनके स्थान पर "समूह ग" शब्द और अक्षर रखा जाएगा।

3. उक्त नियमों की अनुसूची में, केयरटेकर पद से संबंधित क्रम सं० 9 के सामने,—

(1) स्तम्भ 12 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

(i) केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा के उच्च श्रेणी लिपिक, जिन्हें उच्च श्रेणी लिपिक का तीन वर्ष का या उच्च श्रेणी लिपिक और निम्न श्रेणी लिपिक, दोनों को मिलाकर, दस वर्ष का अनुभव है।

या

(ii) निम्न श्रेणी लिपिक जिन्हें दस वर्ष का अनुभव हो।

(iii) समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार) में, बेतार अपरेटर, प्रधान विद्युत फ़िटर, भंडारी (तकनीकी) और विद्युत फ़िटर, जिन्हें अपनी अपनी श्रेणियों में पांच वर्ष का अनुभव है।

(प्रतिनियुक्ति को अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)

[संख्या ए-11016/3/77-प्रशा० (पर्स-1)]

एस० बी० गुप्ता, प्रवर सचिव

New Delhi, the 22nd March, 1979

G.S.R. 504.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Class III posts [Directorate of Coordination (Police Wireless)] Recruitment Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Group 'C' posts [Directorate of Coordination (Police Wireless)] Recruitment (First Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Class III posts [Directorate of Coordination (Police Wireless)] Recruitment Rules, 1962 for the word and figures "Class III", wherever they occur the word and letter "Group 'C'" shall be substituted.

3. In the Schedule to the said rules, against serial No. 9, relating to the post of Caretaker;

(1) in column 12, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

- (i) Upper Division Clerks of Central Secretariat Clerical Service with three years experience as Upper Division Clerk or 10 years experience as Upper Division Clerk and Lower Division Clerk both

OR

- (ii) Lower Division Clerk with 10 years experience

- (iii) Wireless Operator, Head Electrician Fitter, Store Keeper (Technical) and Electrician Fitter of Directorate of Coordination (Police Wireless) having 5 years experience in their respective grades.

(The period of deputation shall not ordinarily exceed 3 years).

[No. A, 11016/3/77-Admn. (Pers.I)]

S. D. GUPTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1979

सा. का. नि. 505.—केन्द्रीय सरकार, सीमा-सुरक्षा बल अधिनियम 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, सीमा सुरक्षा बल, पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती नियम, 1978 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का नाम सीमा सुरक्षा बल, पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती (संशोधन) नियम, 1979 है।

- (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सीमा-सुरक्षा बल, पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती नियम, 1978 की अनुसूची में, स्तम्भ 12 में पशु चिकित्सा सहायक शल्य-चिकित्सक के पद से सम्बन्धित विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

विभागीय चयन बोर्ड

1. उपनिवेशक (संगठन)

... अध्यक्ष

2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
सीमा सुरक्षा बल

... सदस्य

3. पशुपालन विभाग से एक ऐसा
अधिकारी जो उपमन्त्रि की
पंक्ति से नीचे का न हो

... सदस्य

[संख्या 16/50/72-एएसटीसी/बी एस एफ (पर्स-2)/जी० पी० ए०-1]

स० स० अहलुवालिया, निदेशक

New Delhi, the 21st March, 1979

G.S.R. 505.—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of Sub-Section (2) of section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Border Security Force, Veterinary Officers Recruitment Rules, 1978, namely :—

2. In the Schedule to the Border Security Force Veterinary Officers Recruitment (Amendment) (Rules), 1979.

- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Border Security Force Veterinary Officers Recruitment Rules, 1978, for the existing entry relating to the post of Veterinary Assistant Surgeon

in Column 12, the following shall be substituted namely :—

"Departmental Selection Board :

1. Deputy Director (ORG)

Chairman

2. Chief Medical Officer Border Security Force.

Member.

3. An officer from Department of Animal Husbandry not below the rank of a Deputy Secretary

Member".

[No. 16/50/72-Estt./BSF(Pers. II) GPA.I]

S. S. AHLUWALIA, Director

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1979

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा. का. नि. 506.—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 55/79 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 1 मार्च, 1979 में निम्नीलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—
उक्त अधिसूचना से अपाबद्ध मारगी में क्रम सं. 2 में स्तम्भ 2 में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नीलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"बैटन बोर्ड और ब्लॉक बोर्ड (जिसके अन्तर्गत फ्लश द्वार भी हों) जिसके दोनों ओर वाणिज्यिक प्लाई लकड़ी लगी होगी तथा पृष्ठावरणयुक्त शूक और पैनल जो बाहरी पृष्ठावरणों के बीच सरस से जुड़े हों।"

[अधि. सं. 137/79-सी. ई. एफ. सं. 62/7/77 सी एक्स 2]

टी. पी. साईराम, अवर सचिव।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 7th April, 1979

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 506.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 55/79-Central Excises dated the 1st March, 1979, namely :—

In the Table annexed to the said notification, in S. No. 2, for the entry in column (2) the following entry shall be substituted, namely :—

"Batten boards and block boards (including flush doors) having both faces of commercial plywood and veneered shooks and panels made up of strips of wood glued between two outer veneers".

[Notification No. 137/79-CE-F. No. 62/7/77-CX. 2.]

T. V. SAIRAM, Under Secy.

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहायिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1979

आदेश

सांकां० 507.—केन्द्रीय सरकार, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 30 की उपधारा (3) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चाय अपशिष्ट (नियंत्रण) आदेश 1959 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इस आदेश का नाम चाय अपशिष्ट (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1979 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. चाय अपशिष्ट (नियंत्रण) आदेश, 1959 में,—

(1) खण्ड 2 में, उपखण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(कक) “तुरन्त तैयार चाय” से चाय का पानी में घुलनशील ऐसा पाउडर अभिप्रेत है जो चाय के जलीय तत्व के निर्जलन द्वारा प्राप्त किया जाता है;”

(2) खण्ड 3 में, द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक के पश्चात् अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“परन्तु यह भी कि अनुज्ञापन प्राधिकारी चाय के किसी ऐसे अपशिष्ट को, जिसे इस प्रकार विकृत नहीं किया गया है निर्दिष्ट: तुरन्त तैयार चाय के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग के लिए, विक्रय, क्रय या भंडार में संचयन की अनुज्ञा दे सकेगा।”;

(3) खण्ड 4 में, उपखण्ड (ग) में शब्द “कैफीन” के स्थान पर “कैफीन या तुरन्त तैयार चाय” शब्द रखे जाएंगे।

[फा० सं० जे० 13011/1/78-बागान (घ)]

एस० महादेव अय्यर, उप निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES &

COOPERATION

(Department of Commerce)

New Delhi, the 24th March, 1979

ORDER

G.S.R. 507.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (5) of section 30 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Tea Waste (Control) Order, 1959, namely:—

1. (1) This order may be called the Tea Waste (Control) Amendment Order, 1979.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Tea Waste (Control) Order, 1959:—

(1) in clause 2, after sub-clause (a), the following sub-clause shall be inserted, namely:—

“(aa) “instant tea” means a water-soluble tea powder derived by dehydration of aqueous extract of tea;”;

(2) in clause 3, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided also that the licensing authority may allow sale, buying or holding in stock of any tea waste, which has not been so denatured, specifically for use as raw material for the manufacture of instant tea”;

(3) in clause 4, in sub-clause (c), for the word “Caffeine”, the words “Caffeine or instant tea” shall be substituted.

[F. No. J-13011 (1)/78-Plant-A]

S. MAHADEVA, IYER, Dy. Director.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1979

सांकां० 508.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एन० द्वारा सफरजंग अस्पताल, नई दिल्ली डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में विभिन्न राजपत्रित (नान-मेडिकल) समूह 'क' और समूह 'ख' के दत्त चिकित्सीय पदों पर भर्ती के तरीके को विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाने हैं:—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय दत्त-चिकित्सीय (स्वास्थ्य) सेवा भर्ती नियम 1979 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2. उपयोग:—ये नियम इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ-1 में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.—पदों की संख्या उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान यही होंगे जैसा कि अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में निर्दिष्ट है।

4. भर्ती की विधि, आयुसीमा अर्हताएँ आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की विधि, आयुसीमा, अर्हताएँ, तथा अन्य बातें यही होंगी जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में निर्दिष्ट है।

5. अनर्हता :—कोई व्यक्ति—

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता/करती है जिसकी पत्नि जीवित हो, अथवा

(ख) जो व्यक्ति एक पति/एक पत्नी के जीवित रहने के साथ विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है, सेवा में नियुक्ति होने का पात्र नहीं है/होगा।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के अन्य आधार हैं; किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. छूट देने की शक्ति:—जहाँ केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि छूट देना आवश्यक या उचित है वहाँ वह संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से और निम्नलिखित कारणों के आधार पर प्रादेश द्वारा किसी श्रेणी या वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को इन नियमों के किसी उपबन्ध से छूट दे सकती है।

7. व्यावृत्ति:—इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये जिन आरक्षणों और अन्य रियायतों की व्यवस्था करना अपेक्षित है, उन पर इन नियमों को किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

8. रद्द करना :—उपर्युक्त तीनों संगठनों के बारे में दस्त-चिकित्सीय पदों से सम्बन्धित पहले जारी किये गये नियमों को एतद्वारा रद्द किया जाता है।

परन्तु यह है कि यदि उन नियमों के अन्तर्गत, जिन्हें अब रद्द कर दिया गया है, कोई कार्यवाही की गई हो तो उसे इन नियमों में दिए गए तत्पक्षीय प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया समझा जाएगा।

अनुसूची

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) सफरजंग अस्पताल, ब्रिनिगडन अस्पताल (अब डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल) और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में समूह "क" और समूह "ख" के दंत चिकित्सीय पदों के संशोधित भर्ती नियम

नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अभ्ययन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य शर्तें
1	2	3	4	5	6	7

1 स्टाफ सर्जन
(दंत चिकित्सा)

3 सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित अनुसूचित

1300-50-1700-
सर्ज + प्रोविडेंट संबंधित
जैसा कि समय-समय पर
भारत सरकार द्वारा
स्वीकार किया जाये।

चयन पद

45 वर्ष से अधिक नहीं
(सरकारी कर्मचारियों
के लिए शिथिलनीय)
टिप्पण:आयु सीमा अवधारित
करने की तिथि
तारीख भारत में
रहने वाले अभ्यर्थि-
यों से (उनको छोड़-
कर जो अंशमान और
निकोबार द्वीप समूह
तथा लक्षद्वीप में रहते
हैं) प्रावेश प्राप्त
करने की अंतिम
तारीख होगी।

अतिरिक्त:—

1. दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948
(1948 का 16) की अनुसूची
के भाग-1 अथवा भाग-2 में
सम्मिलित अर्हता।2. किसी मान्यताप्राप्त संस्थान की दंत
चिकित्सा में स्नातकोत्तर अर्हता
या उस के समतुल्य अर्हता।3. किसी दंत-चिकित्सा परिषद में
पंजीकृत होना चाहिए।4. किसी अस्पताल अथवा प्राइवेट
प्रैक्टिस में दंत चिकित्सा के कार्य
का 10 वर्ष का अनुभव।

टिप्पण-1

अथवा सब प्रकार से सुयोग्य
उम्मीदवारों के मामलों में संघ
लोक सेवा आयोग के विवेक पर
अर्हताएं शिथिलनीय हैं।

टिप्पण-2

यदि संघ लोक सेवा आयोग चयन
करते समय किसी स्टेज पर यह
अनुभव करता है कि अनुसूचित
जाति/अनुसूचित जन जाति के
उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों
की भरने के लिए अपेक्षित अर्हताएं
रखने वाले इन जातियों के उम्मी-
दवार पर्याप्त संख्या में उप-
लब्ध नहीं हैं तो इनके लिए
अनुभव संबंधी अर्हताएं संघ लोक
सेवा आयोग के विवेक पर
शिथिलनीय हैं।

क्या संघे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताये प्रोन्नती की दशा में लागू होंगी	परिक्षा की मर्यादा, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : क्या भर्ती संघे होगी या प्रोन्नति द्वारा या स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति हो तो उसकी संरचना	वे परिस्थितियाँ जिनसे भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
---	---------------------------------	--	---	---	--

8	9	10	11	12	13
आयु : नहीं ; शैक्षिक अर्हताये : हाँ	2 वर्ष	66-2/3 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा और 33-1/3 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	पदोन्नति : नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में कनिष्ठ स्टाफ सर्जन (वंत चिकित्सा के पद पर 5 वर्ष की सेवा की हो)।	समूह "क" विभागीय समिति : पदोन्नती : 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष ; 2. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग—सदस्य ; 3. अपर महा-निदेशक/उप महा निदेशक—सदस्य ; 4. निदेशक प्रशासन व सतर्कता, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय—सदस्य।	पदोन्नति और सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6	7
2. जूनियर स्टाफ सर्जन (वंत-चिकित्सा)	4	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित अनुसूचितीय	900-40-1100- द.रो.-50-1400 प्रीक्टिस बंकी भत्ता जैसा कि समय-समय पर भारत सरकार द्वारा मंजूर किया गया हो।	चयन पद	40 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिये शिथिलनीय) नोट :— आयु सीमा अवधारित करने को निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनको छोड़ कर जो अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) प्राप्ति प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी।	प्रतिवार्य :— 1. वंत चिकित्सक अधिनियम 1948 (1948 का 16) की अनुसूची के भाग-1 अथवा भाग 2 में सम्मिलित अर्हता। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से वंत चिकित्सा में स्नातक पूर्ण अर्हता या उसके समतुल्य अर्हता। 3. वंत परिषद के पास पंजीकृत होना चाहिये। 4. किसी अस्पताल अथवा प्राइवेट प्रैक्टिस में वंत चिकित्सा के कार्य में 7 वर्ष का अनुभव। नोट-1 अन्यथा सब प्रकार से सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में सच लोह सेवा आयोग के विवेक पर अर्हताये शिथिलनीय हैं। नोट-2 यदि संघ लोक सेवा आयोग चयन करते समय किसी स्टेज पर यह अनुभव करता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये आरक्षण पदों को भरने के लिये अपेक्षित अर्हताये रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं तो इनके लिये अनुभव सम्बन्धी अर्हताये संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं।

8	9	10	11	12	13
नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी सीधी द्वारा	पदोन्नति : नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में दंत चिकित्सक के पद पर 5 वर्ष की सेवा की हो।	समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति :— 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष ; 2. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग—सदस्य ; 3. अपर महा-निदेशक/उपमहानिदेशक—सदस्य 4. निदेशक, प्रशासन और सतर्कता, स्वास्थ्य सेवा महा निदेशालय—सदस्य।	पदोन्नति और सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा से परामर्श लेना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6	7
3 दंत सर्जन	17	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ख" राजपत्रित अनुसूचितीय	650-30-740-35-810-२००-35-880-40-1000-२०००-40-1200 प्रेक्टिस बंवी भत्ता जैसा कि समय-समय पर भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया जाए।	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अनधिक (सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिल-नीय) नोट :—आयु सीमा अवधारित करने की निष्पत्ति तारीख भारत में रहने वाले अभ्याथियों से (उन को छोड़ कर जो अइमान और निकोबार द्वीप-समूह तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी।	अनिवार्य : 1. दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) के भाग 1 या भाग 2 में शामिल की गई अर्हता। 2. किसी दंत चिकित्सा परिषद् में पंजीकृत होना चाहिए। 3. किसी अस्पताल में या निजी प्रैक्टिस के रूप में दंत चिकित्सा संबंधी कार्य करने का तीन वर्ष का अनुभव। नोट :—1. अन्यथा सब प्रकार से सुयोग्य उम्मीदवारों के मामलों में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हताएं शिथिल-नीय हैं। नोट :—2. यदि संघ लोक सेवा आयोग चयन करते समय किसी स्टेज पर यह अनुभव करता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए अपेक्षित अर्हताएं रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं तो इनके लिए अनुभव संबंधी अर्हताएं संघ-लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं। बोछनीय : दंत चिकित्सा में स्नातकोत्तर अर्हता।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	समूह "ख" विभागीय पदोन्नति समिति (स्वयं करने के लिए) 1. अपर महानिदेशक—अध्यक्ष	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है।

8	9	10	11	12	13
				2. उपमहानिदेशक (एम) —सर्वस्व	
				3. निदेशक (प्रशासन तथा सतर्कता)—सर्वस्व	
				4. उपनिदेशक प्रशासन (प्रो० एंड एम)—सर्वस्व	

[सं० ए-12018/8/76-प्रस्पताल]

के० सी० कपूर, चवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 23rd March, 1979.

G.S.R. 508.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain gazetted (non-medical) Group 'A' and Group 'B' Dental posts in Safdarjang Hospital, New Delhi, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi and the Central Government Health Scheme, namely—

1. Short title and commencement:—(1) These rules may be called the Central Dental (Health) Service Recruitment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application:—These rules shall apply to the posts as specified in Column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. Number, classification and scale of pay:—The number of the posts, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications:—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in column 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

5. Disqualification:—No person,—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person, and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

8. Repeal.—The Recruitment Rules in respect of Dental posts relating to the above three organisations issued earlier are hereby repealed:

Provided that any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been taken under the corresponding provisions of these rules.

SCHEDULE

Revised Recruitment Rules for Group 'A' and Group 'B' Dental Posts in Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) in the Safdarjang Hospital, Willingdon Hospital (Now Dr. Ram Manohar Lohia Hospital) and the Central Government Health Scheme

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-Selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
1. Staff, Surgeon (Dental)	3	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 1300-50-1700 plus NPA as sanctioned by the Government of India time to time.	Selection	Not exceeding 45 years. (Relaxable for Government servants). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other	Essential: (i) A qualification included in part I or Part II of the Schedule to the Dentists Act, 1948 (16 of 1948). (ii) A post-graduate qualification in Dentistry from a recognised Institution or equivalent. (iii) Should be registered with a Dental Council. (iv) 10 years' experience of dental work in a hospital or in private practice.

1	2	3	4	5	6	7
					than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up vacancies reserved for them

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in recruitment
8	9	10	11	12	13
Age : No Educational Qualification : Yes	2 years	66-2/3 % by promotion and 33-1/3 % by direct recruitment.	Promotion : Junior Staff Surgeon (Dental) with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Group 'A' Departmental Promotion Committee— (i) Chairman/Member, UPSC—Chairman. (ii) Joint Secretary, Deptt. of Health—Member. (iii) Additional Director General of Health Services/Deputy Director General—Member. (iv) Director, Admn. & Vigilance, Dte. General of Health Services—Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while making promotion and direct recruitment.

1	2	3	4	5	6	7
2. Junior Staff Surgeon (Dental)	4	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 900-40-1100-EB-50-1400+NPA as sanctioned by the Government of India from time to time.	Selection	Not exceeding 40 years. (Relaxable for Government Servants). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing	Essential : (i) A qualification included in Part I or Part II of the Schedule to the Dentists Act, 1948 (16 of 1948). (ii) A post graduate qualification in Dentistry from a recognised Institution or equivalent (iii) Should be registered with Dental Council.

1	2	3	4	5	6	7
					date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	(iv) 7 years' experience of Dental work in a hospital or in private practice. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
8	9	10	11	12	13	
	2 years	By promotion which by direct recruitment.	Promotion : Dental Surgeon with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Group 'A' Departmental Promotion Committee :— (i) Chairman/Member, UPSC—Chairman. (ii) Joint Secretary, Deptt. of Health—Member. (iii) Additional Director General/Deputy Director General—Member. (iv) Director, Admn. & Vigilance, Director General of Health Services—Member.	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making promotion and direct recruitment.	
1	2	3	4	5	6	7
Dental Surgeon	17	General Central Service Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 +NPA as sanctioned by the Government of India from time to time.	Not applicable.	Not exceeding 35 years. (Relaxable for Government servant Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential : (i) Qualification included in Part I or Part II of the Dentists Act, 1948 (16 of 1748). (ii) Should be registered with a Dental Council. (iii) 3 years' experience of dental works in a Hospital or in private practice. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates otherwise well-qualified. Note 2 : Qualification regarding experience is relaxable at

1	2	3	4	5	6	7
						the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
						Desirable : A post-graduate qualification in Dentistry.
8	9	10	11	12	13	
Not applicable	2 years	By direct recruitment	Not applicable	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :— (i) Additional Director General—Chairman. (ii) Deputy Director General (M)—Member. (iii) Director (A & V)—Member. (iv) Deputy Director Admn. (O & M)—Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment.	

[No. A. 12018/8/76-H]

K. C. KAPOOR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Food)

New Delhi, the 13th March, 1979

G.S.R. 509.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Grain Storage Institute, Hapur (Photographer Grade II) Recruitment Rules, 1976, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Indian Grain Storage Institute, Hapur (Photographer Grade II) Recruitment (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Grain Storage Institute, Hapur (Photographer Grade II) Recruitment Rules, 1976, in Col. 7 for the existing entry the following shall be substituted, namely :—

"Essential.—(i) Matriculation or equivalent ;

(ii) Two years practical experience in Photographic work connected with exposing, processing and enlarging Photographs for publication and exhibition etc.,

Desirable.—(i) Diploma in Photography from a recognised Institute. .

(ii) Experience of handling various types of cameras. (Still and Movie) and projectors

(iii) Experience in photographic art work connected with translating scientific ideas to lay people."

Note.—Hindi version of the notification would be published later on.

[No. A-12026/2/78-E. VI]

CHANAN RAM, Under Secy.

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1979

सा. का. नि. 510.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तंबाकू विकास निदेशालय (समूह ग और समूह घ पद) वर्गी नियम, 1968 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम तंबाकू विकास निदेशालय (समूह ग और समूह घ पद) वर्गी (द्वितीय संशोधन) नियम, 1979 ;

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. तम्बाकु विकास निदेशालय (समूह ग और समूह ड पद) भर्ती नियम, 1968 की अनुसूची में "कनिष्ठ संगणक" के पद से संबंधित क्रम सं० 6 के सामने स्तम्भ 5, 7 और 8 में प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(5)	(7)	(8)
260-6-290- द० रो०- 18 से 25 वर्ष 5-326-8-366 द० रो०- 8-390-10-400 द०	(1) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य। (2) की-पंचिंग परीक्षा उत्तीर्ण हो (आई सी० एल० हस्त-पंचिंग मशीन पर 30 मिस्टों में 42 कार्ड और आई० सी० एम० विद्युत मशीन पर 30 मिस्टों में 84 कार्ड)।	

[सं० का० 57-3/78 सी०ए० IV]

बी० पी० शर्मा, अवर सचिव

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 21st March, 1979

G.S.R 510.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, further to amend the Tambaku Vikas Nideshalaya (Directorate of Tobacco Development) (Group C and Group D posts) Recruitment Rules, 1968, namely:—

1. (i) These rules may be called the Tambaku Vikas Nideshalaya (Directorate of Tobacco Development) (Group C and Group D posts) Recruitment (Second Amendment) Rules 1979.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Tambaku Vikas Nideshalaya (Directorate of Tobacco Development) (Group C and Group D posts) Recruitment Rules, 1968 for the entries in columns 5, 7 and 8 against serial number 6, relating to the post of "Junior Computer," the following entries shall respectively be substituted, namely:—

(5)	(7)	(8)
260-6-290-EB-6- 18 to 25 226-8-366-EB-8- years 10-10-400.	(1) Matriculation or equivalent. (2) Should have passed a Key-Punching test (In the I.C.L. Hand-punching	

(5)

(7)

(8)

machine—42 Cards in 30 minutes. In the IBM Electric Machine 84 cards in 30 minutes).

[No. F.57-3/78.CA.IV]

D. P. SHARMA, Under Secy.

(सिवाई विभाग)

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1979

सा० का० नि० 511.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे, समूह क और ख (इंजीनियरी और वैज्ञानिक) पद भर्ती नियम, 1966 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे, समूह क और ख (इंजीनियरी और वैज्ञानिक) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे, समूह क और ख (इंजीनियरी और वैज्ञानिक) पद भर्ती नियम, 1966 की अनुसूची में, शीर्ष "क" इंजीनियरी पद के नीचे,—

(i) मुख्य अनुसंधान अधिकारी (श्रेणी-I) के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तम्भ 2 में, अंक "4" के स्थान पर अंक "10" रखा जाएगा।

(ii) मुख्य अनुसंधान अधिकारी (श्रेणी-I) (केवीटेशन) से संबंधित क्रम संख्यांक 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[सं० 37/79 एफ० सं० 39/15/78-प्रशा०-एक/स्था-II]

(Department of Irrigation)

New Delhi, the 21st March, 1979

G.S.R. 511.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Water and Power Research Station, Poona, Group A and Group B (Engineering and Scientific) Posts Recruitment Rules, 1966, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Water and Power Research Station, Poona, Group A and Group B (Engineering and Scientific) Posts Recruitment (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Water and Power Research Station, Poona, Group A and Group B (Engineering and Scientific) Posts Recruitment Rules, 1966, under the heading "(A) Engineering Posts",

(i) against serial number 2, relating to the post of Chief Research Officer (Grade I), in Column 2, for the figure "4", the figures "10" shall be substituted.

(ii) serial number 6, relating to the posts of Chief Research Officer (Grade I) (Cavitation) and entries thereto shall be omitted.

[No. 37/79 F.No. 39/15/78-Adm. 1/Estt. II]

(हृषि विभाग)

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1979

सा० का० नि० 512—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे, समूह क और समूह ख (इंजीनियरी और वैज्ञानिक) पद शर्ती नियम, 1966 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे, समूह क और समूह ख (इंजीनियरी और वैज्ञानिक) पद शर्ती (द्वितीय संशोधन) नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे, समूह क और समूह ख (इंजीनियरी और वैज्ञानिक) पद शर्ती नियम, 1966 की अनुसूची के शीर्ष,—

(i) '(क) इंजीनियरी पद' के नीचे—(1) संयुक्त निदेशक के पद से संबंधित क्रम संख्याक '1क' को '1ख' के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा;

(ii) इस प्रकार पुनः संख्यांकित क्रम संख्याक 1ख के सामने, स्तम्भ 2 में, अंक "2" के स्थान पर अंक "3" रखा जाएगा;

(iii) इस प्रकार पुनः संख्यांकित क्रम संख्याक 1ख के पहले निम्नलिखित क्रम संख्याक और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी अर्थात्—

1	2	3	4	5	6	7
"1क" अपर निदेशक	1 (एक)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अनिवार्यकर्गीय	2000-125/2-2500 ०	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
8	9	10	11	12	13	
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा	प्रोन्नति : केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे के संयुक्त निदेशक (वैज्ञानिक) और संयुक्त निदेशक (इंजीनियरी) में से, जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद तीन वर्ष सेवा कर ली है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (अल्पकालिक संविदा सहित) ऐसे इंजीनियर, जो केन्द्रीय सरकार (केन्द्रीय जल आयोग सहित), राज्य सरकारों/मंत्रालयों के अधीन सद्यः पद धारण किए हुए हैं या जिन्होंने 1800-2250 हपए के बतनमान वाले पर्वों या समतुल्य पर्वों पर तीन वर्ष नियमित सेवा कर ली है/अर्द्ध सरकारी संगठनों/पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों, अनुसंधान एवं विकास संगठनों, प्रतिष्ठित निजी फर्मों के उपयुक्त स्तर के अधिकारी, विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य, जिन्हें द्रव चालिका, द्रवी चापित संरचनाओं/जल संसाधनों/तटीय इंजीनियरी के क्षेत्र में और द्रव चालिका अनुसंधान के अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य का अनुभव हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	समूह "क" विभागीय प्रोन्नति मामिल जिसमें निम्नलिखित होंगे— 1. अध्यक्ष/सदस्य, मंत्रालय सेवा आयोग—अध्यक्ष 2. सचिव, सिंचाई विभाग—सदस्य 3. अध्यक्ष/सदस्य, केन्द्रीय जल आयोग—सदस्य	चयन करते समय मंत्रालय सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।"	

(2) (ख) वैज्ञानिक पद,—(i) मुख्य अनुसंधान अधिकारी (श्रेणी 1) से संबंधित क्रम संख्याक "1" को "1क" के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा।

(ii) इस प्रकार पुनः संख्यांकित क्रम संख्याक 1क के पहले निम्नलिखित क्रम संख्याक और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:

1	2	3	4	5	6	7
"1. संयुक्त निवेशक	1	साधारण केन्द्रीय सेवा	1800-100-2000-	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	(एक)	समूह 'क' राजपत्रित	125/2-2250			
			रुपए			

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : मुख्य अनुसंधान अधिकारी (श्रेणी 1) (वैज्ञानिक), जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद तीन वर्ष सेवा कर ली है।	समूह "क" विभागीय प्रोन्नति जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष 2. सचिव/संयुक्त सचिव, सिवाही विभाग—सदस्य 3. अध्यक्ष/सदस्य, केन्द्रीय जन आयोग—सदस्य	चयन करते समय लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।"

[मं० 38/79 एक०सं० 39/24/77-प्रशा० एक स्थापना]

मुकेश शर्मा, अवर सचिव

G.S.R. 512.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Water and Power Research Station, Poona, Group A and Group B (Engineering & Scientific) Posts Recruitment Rules, 1966, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Water and Power Research Station, Poona, Group A and Group B (Engineering and Scientific) Posts Recruitment (Second Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Water and Power Research Station, Poona, Group A and Group B (Engineering and Scientific) Posts Recruitment Rules, 1966—under heading:

(1) (A) Engineering Posts:—(i) the serial number '1A' relating to the post of Joint Director shall be renumbered as serial number '1B';

(ii) against serial number 1B, so-renumbered in column 2 for the figure "2" the figure "3" shall be substituted;

(iii) before serial number 1B so-renumbered, the following serial number and entries thereto shall be inserted, namely:—

1	2	3	4	5	6	7
"1A Additional Director	1 (one)	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 2000-125/2-2500	Selection	Not applicable.	Not applicable

8	9	10	12	12	13
Not applicable	Two years	By promotion failing which by transfer on deputation (including short-term contract).	<p>Promotion : From a field consisting of Joint Director (Scientific) and Joint Director (Engineering), Central Water and Power Research Station, Pune with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.</p> <p>Transfer on deputation (including short-term contract).</p> <p>Engineers holding analogous posts with three years regular service in posts carrying a pay scale of Rs. 1800-2250 or equivalent under the Central Government (including Central Water Commission), State Governments or Union Territories/officers of appropriate status in Semi-Government organisations, Public Sector Undertakings, R&D Organisations, Private concerns of standing, Professors of Universities and Affiliated Colleges with experience in applied research in the field of Hydraulics / Hydraulic Structures/Water Resources/ Coastal Engineering or other areas of Hydraulic Research.</p> <p>(Period of deputation ordinarily not to exceed three years).</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee consisting of :—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman 2. Secretary Department of Irrigation—Member 3. Chairman/Member, Central Water Commission—Member. 	<p>Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making selection</p>

(2)(B) Scientific Posts:— (i) the serial number '1' relating to the post of Chief Research Officer (Grade I) shall be renumbered as '1A'; (ii) before serial number 1A, so-renumbered, the following serial number and entries thereto shall be inserted; namely:—

"1. Joint Director	1 (one)	General Central Service Group 'A' Gazetted	Rs. 1800-100-2000-125/2-2250.	Selection	Not applicable	Not applicable
8	9	10	11	12	13	
Not applicable	Two years	By promotion	Promotion : Chief Research Officer (Gr. I) (Scientific) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Group 'A' Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman 2. Secretary/Joint Secretary, Department of Irrigation—Member. 3. Chairman/Member, Central Water Commission—Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while making selection."	

(हृषि विभाग)

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1979

सा. का. नि. 513—राष्ट्रपति, सचिवालय के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन अनुसंधान संस्थान और महा-विश्व नय देहरादून में चलचित्रकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ —(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इन अनुसंधान संस्थान और महाविद्यालय, देहरादून (चलचित्रकार) भर्ती नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 पद पढ़ा, वर्गीकरण और बेतनमान —उक्त पद की सख्या, उसका वर्गीकरण और उसका बेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूचि के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3 भर्ती की पद्धति आयु-सीमा और ग्रहणाएँ आदि —उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, ग्रहणाएँ और उससे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूचि के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4 निर्ग्रहणाएँ —यह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,

(ख) जिसने अपनी पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो यह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5 नियम शिथिल करने की शक्ति —जहाँ केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहाँ वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा सब लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6 व्याप्ति —इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निश्चय गण आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की सख्या	वर्गीकरण	बेतनमान	चयन पद अधिनियम पद अधिनियम पद	संघी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	संघी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य ग्रहणाएँ आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
चलचित्रकार	1	साधारण केन्द्रय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, धलिपिकवर्गीय	650-30-740-35-810-40-1000-80 880 40-1000-40-1200	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवाओं के लिए शिथिल की जा सकती है) डिप्लोमा आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे निम्न जो भर्तमान, निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी।	आवश्यक (क) (1) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से चलचित्र की (चलचित्र फोटोग्राफी) में उपाधि या डिप्लोमा या समतुल्य (2) फिल्म और अभिलेख फोटोग्राफी के लिए कैमरामैन के रूप में 2 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव और फोटोग्राफी का जिसमें अन्य कला का काम भी सम्मिलित है, अच्छा सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान, अधिका (ख) (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या समतुल्य।

1	2	3	4	5	6	7
						(2) फिल्म और अचल चित्र फोटोग्राफी के लिए कैमरामैन का रूप में 4 वर्ष का अनुभव और फोटोग्राफी का, जिसमें प्रशिक्षण का काम भी सम्मिलित है, अच्छा सैद्धांतिक और
						टिप्पण 1. अर्हताएं, अन्यथा सुप्र-हित अभ्यर्थियों की वृत्ति में सच लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।
						टिप्पण 2. अनुभव संबंधी अर्हताएं सच लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामलों में उस वृत्ति में शिथिल की जा सकती है, जबकि भ्रम के किसी प्रक्रम पर सच लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि इसके लिए प्रारक्षित पदों पर भर्ती के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं।
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की वृत्ति में लागू होगी या नहीं	परिक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की वृत्ति में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में सच लोक सेवा आयोग द्वारा परामर्श किया जाएगा	
8	9	10	11	12	13	
लागू नहीं होता	2 वर्ष	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण। मनुष्य पद धारण करने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारी जिनके पास स्तम्भ 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्न-लिखित होंगे— 1 संयुक्त सचिव (वन और वन्य जीवन)—प्रध्यक्ष 2 वन उप-महानिरीक्षक (एम०पी०)—सदस्य 3 अध्यक्ष, वन अनुसंधान संस्थान और महाविद्यालय, देहरादून—सदस्य 4 अवर सचिव (ए०आई० एस०) (सीधी भर्ती की पुष्टि पर विचार करने के लिए)—सदस्य	सीधी भर्ती सच लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जाएगी।	

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 22nd March, 1979

G.S.R. 513.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Cinematographer at the Forest Research Institute and Colleges, Dehra Dun, namely :—

1. (1) Short title and commencement.—These rules may be called the Forest Research Institute and Colleges, Dhera Dun (Cinematographer) Recruitment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in column 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection Post or Non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Cinematographer	1	General Central Service Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200.	Not Applicable	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep)	Essential :— (A) (i) Degree or Diploma in Cinematography (Motion Picture Photography) of a recognised Institute or equivalent. (ii) 2 year's practical experience as Cameraman for Film and Still photography with good theoretical and practical knowledge of photography, including dark Room Work. OR (B) (i) Bachelor's degree of recognised University or equivalent. (ii) 4 year's experience as Cameraman for film and Still Photography with good theoretical and practical knowledge of photography, including Dark Room Work. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

1	2	3	4	5	6	7
						Note 2 : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits shall apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filled up by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a OPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Applicable.	2 years.	By transfer on deputation, failing which by direct recruitment.	Transfer on deputation:— Officers of the Central Government holding analogous posts and possessing qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column 7. (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years).	Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of— 1. Joint Secretary (Forests and Wildlife)—Chairman. 2. Deputy Inspector General of Forests (SP)—Member. 3. President, Forest Research Institute and Colleges, Dehra Dun—Member. 4. Under Secretary (AIS)—Member. (for considering confirmation of the direct recruit).	Direct recruitment shall be made in consultation with the Union Public Service Commission.

[No. 1-40/76-FRY-I]
G. N. JOSHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1979

सं० का० वि० 514—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (अर्थ एवं सांख्यिकी सलाहकार) भर्ती नियम, 1978 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का नाम अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (अर्थ एवं सांख्यिकी सलाहकार) भर्ती (संशोधन) नियम, 1978 है।

- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (अर्थ एवं सांख्यिकी सलाहकार) भर्ती नियम, 1978 की अनुसूची के स्तंभ 12 में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (सीधी भर्ती द्वारा धार्य व्यक्तियों के पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

1. अध्यक्ष या सचिव संघ लोक सेवा आयोग ... अध्यक्ष
2. सचिव कृषि और ग्राम विकास ... सचिव
3. उपर सचिव (बी) ... सचिव

[सं० 13013/2/77-अर्थ नीति]

दरबारी लाल, अवर सचिव

New Delhi, the 26th March, 1976

G.S.R. 514.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Directorate of Economics and Statistics (Economic and Statistical Adviser) Recruitment Rules, 1978, namely :—

1. (1) These rules may be called the Directorate of Economics and Statistics (Economic and Statistical Adviser Recruitment (Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Directorate of Economics and Statistics (Economic and Statistical Adviser) Recruitment Rules, 1978, or the entries under Column 12, the following shall be substituted, namely :—

“Group ‘A’ Departmental Promotion Committee (for Considering Confirmation of direct recruit) consisting of :—

1. Chairman or Member Union Public Service Commission.....Chairman.

2. Secretary, Agriculture and Rural Development.....Member.

3. Additional Secretary (P).....Member.”

[No. 13013/2/77-Econ. Py.]

DARBARI LAL, Under Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1979

सां.कां.निं. 515.—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) और (6) के साथ पठित धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कैप्टन जी.पी.एस. भल्ला के स्थान पर कैप्टन बी.एस. कुमार की प्रवीण पत्तन के ग्यासी बोर्ड में भारत के राष्ट्रीय पोत-स्वामी संस्था, मुम्बई के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति को अधिसूचित करती है और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन (परिवहन पक्ष) मंत्रालय की अधिसूचना सं.सां.कां.निं. 212 (अ) तारीख 31 मार्च, 1978 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 11 के सामने प्रविष्टि में, “कैप्टन जी.पी.एस. भल्ला” शब्दों और अक्षरों के स्थान पर, “कैप्टन बी.एस. कुमार शब्द और अक्षर रखे जाएंगे।

[एफ. सं. पी.टी.सी.-33/78]

एस. पी. जैन, उप सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 20th March, 1979

G.S.R. 515.—In exercise of the powers conferred by section 13, read with sub-sections (1) and (6) of section 3, of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby notifies the appointment of Captain B. S. Kumar, as a representative of the Indian National Shipowners Association, Bombay, on the Board of Trustees of the Port of Paradip, Vice Captain G.P.S. Bhalla and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 212(E), dated the 31st March, 1978, namely :—

In the said notification, in the entry against serial number 11, for the words and letters “Captain G.P.S. Bhalla”, the words and letters “Captain B. S. Kumar” shall be substituted.

[F. No. PTB-33/78]

S.P. JAIN, Dy. Secy.

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1979

सां. कां. निं. 516.—केन्द्रीय सरकार, वायुगान अधिनियम, 1931 (1934 का 22) की धारा 9क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि वायुगान मंचालन हेतु ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, यह निर्देश करती है कि—

(1) इस अधिसूचना के उपाबंध 3 में सूचीबद्ध किए गए विमान क्षेत्र की बाबत, इस अधिसूचना के उपाबंध 1 में विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर किसी भी भूमि पर कोई भी भवन या संरचना निर्मित नहीं की जाएगी या कोई वृक्ष नहीं लगाया जाएगा और जहाँ ऐसी भूमि पर कोई भवन, संरचना या वृक्ष है वहाँ ऐसे भवन संरचना या वृक्ष का स्वामी या उसका नियंत्रक ऐसे भवन या संरचना को या ऐसे वृक्ष को सुरक्षित, किन्तु किसी भी दशा में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक मास के भीतर, यथास्थिति, गिरावा देना या कटवा देगा।

(2) इस अधिसूचना के उपाबंध 3 में सूचीबद्ध विमान क्षेत्रों के, विमान क्षेत्र निर्देश बिन्दु (विं. निं. विं.) से बीस किलो मीटर की दूरी के भीतर किसी भी भूमि पर उपाबंध 1 में उल्लिखित भूमि को छोड़ कर, उपाबंध 2 में विनिर्दिष्ट ऊँचाई से अधिक ऊँचाई का कोई भी भवन या संरचना निर्मित या खड़ा नहीं किया जाएगा या ऐसा कोई वृक्ष नहीं लगाया जाएगा जो उक्त उपाबंध 2 में विनिर्दिष्ट ऊँचाई से अधिक बढ़ने वाला हो या सामान्यतः बढ़ सकता हो और यदि किसी भवन, संरचना या वृक्ष की ऊँचाई उक्त उपाबंध 2 में विनिर्दिष्ट ऊँचाई से अधिक है तो ऐसे भवन, संरचना या वृक्ष का स्वामी या उसका नियंत्रक, ऐसे भवन, संरचना या वृक्ष की ऊँचाई को सुरक्षित, किन्तु किसी भी दशा में, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक मास के भीतर, कम करवा देगा जिससे कि वह विनिर्दिष्ट ऊँचाई से अधिक ऊँचाई रहे।

प्रत्येक रन-वे के मध्य से दोनों ओर रन-वे साथ-साथ फैली हुई 36 मीटर की अधिकतम दूरी से घिरी हुई आगमन फनल वाली भूमि।

टिप्पण 1.—इस उपाबंध में उपकरण युक्त रन-वे की दशा में “आगमन फनल” से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जो समद्विबाहु समलम्ब के आकार का है। उसकी लम्बी वाली समानान्तर भुजा, 4800 मीटर लम्बी (रन-वे की मध्य रेखा के दोनों ओर 2400 मीटर फैली हुई) है और छोटी वाली समानान्तर भुजा 300 मीटर लम्बी (रन-वे की मध्य रेखा के दोनों ओर 150 मीटर फैली हुई) है, और छोटी तथा लम्बी समानान्तर भुजाएँ रन-वे के सिरे से फैली हुई, मध्य रेखा से समकोण पर क्रमशः 60 मीटर और 15060 मीटर की दूरी पर हैं।

टिप्पण 2.—उपकरण रहित रन-वे की दशा में “आगमन फनल” से वह क्षेत्र अभिप्रेत है, जो समद्विबाहु समलम्ब के आकार का है। उसकी लम्बी वाली समानान्तर भुजा 1800 मीटर लम्बी (रन-वे की मध्य रेखा के दोनों ओर 900 मीटर फैली हुई) है और छोटी वाली समानान्तर भुजा 180 मीटर लम्बी (रन-वे की मध्यरेखा के दोनों ओर 90 मीटर फैली हुई) है और छोटी तथा लम्बी भुजाएँ रन-वे के सिरे से फैली हुई मध्य रेखा से समकोण पर क्रमशः 60 मीटर और 6540 मीटर की दूरी पर हैं। उसके बाद समलम्ब से लगा हुआ एक आयताकार क्षेत्र होता है, जो रन-वे के सिरे से 15060 मीटर की दूरी तक शेष लम्बाई में उसी चौड़ाई का होगा।

टिप्पण 3 —उपकरण रन-वे ऐसा रन-वे है जिसमें बाधक या अबाधक सहायता उपलब्ध है या जिसमें ऐसी सहायता उपलब्ध है जिससे विभा मार्गदर्शन हो सकता है और जो सीधे उतरने वाले वायुयानों के लिए पर्याप्त है और ऐसे वायुयानों के संचालन के लिए प्राशयित है जो उपकरण प्रागमन प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं।

उपाबंध 3

- (क) सभी रन-वे के "पार्श्व वायु-मार्ग" से घिरी भूमि, जहाँ दूरी रन-वे के प्रत्येक सिरे से तथा रन-वे की विस्तारित मध्य रेखा के साथ-साथ मापी जाती है।

क्षेत्र	निकटतम रन-वे के एक सिरे के उत्पात से ऊपर अधिकतम अनुज्ञेय ऊँचाई
(i) 360 मीटर से अधिक किन्तु 510 मीटर से अनधिक	6 मीटर
(ii) 510 मीटर से अधिक किन्तु 660 मीटर से अनधिक	9 मीटर
(iii) 660 मीटर से अधिक किन्तु 810 मीटर से अनधिक	12 मीटर
(iv) 810 मीटर से अधिक किन्तु 960 मीटर से अनधिक	15 मीटर
(v) 960 मीटर से अधिक किन्तु 1110 मीटर से अनधिक	18 मीटर
(vi) 1110 मीटर से अधिक किन्तु 1260 मीटर से अनधिक	21 मीटर
(vii) 1260 मीटर से अधिक किन्तु 1410 मीटर से अनधिक	24 मीटर
(viii) 1410 मीटर से अधिक किन्तु 1560 मीटर से अनधिक	27 मीटर
(ix) 1560 मीटर से अधिक	30 मीटर

- (ख) इस अधिसूचना के उपाबंध 3 में सूचीबद्ध किसी विमान क्षेत्र के सभी रन-वे के "संक्रमण-क्षेत्र" से घिरी भूमि, जहाँ दूरी की माप, संलग्न रन-वे की पट्टी से और संलग्न "प्रागमन फनल" के सिरे से जिनमें "संक्रमण क्षेत्र" की भीतरी सीमा बनती है, और रन-वे की मध्य रेखा से समकोण पर जाने वाली सीधी रेखा के साथ-साथ की जाती है।

ऊपर विनिर्दिष्ट "संक्रमण क्षेत्र" की भीतरी सीमा से दूरी वि०नि०वि० की ऊँचाई से ऊपर अनुज्ञेय अधिकतम ऊँचाई

(i) 21 मीटर की दूरी तक	शून्य
(ii) 21 मीटर से अधिक किन्तु 42 मीटर से अनधिक	42 मीटर 3 मीटर
(iii) 42 मीटर से अधिक किन्तु 63 मीटर से अनधिक	63 मीटर 6 मीटर
(iv) 63 मीटर से अधिक किन्तु 84 मीटर से अनधिक	84 मीटर 9 मीटर
(v) 84 मीटर से अधिक किन्तु 105 मीटर से अनधिक	105 मीटर 12 मीटर
(vi) 105 मीटर से अधिक किन्तु 126 मीटर से अनधिक	126 मीटर 15 मीटर
(vii) 126 मीटर से अधिक किन्तु 147 मीटर से अनधिक	147 मीटर 18 मीटर
(viii) 147 मीटर से अधिक किन्तु 168 मीटर से अनधिक	168 मीटर 21 मीटर
(ix) 168 मीटर से अधिक किन्तु 189 मीटर से अनधिक	189 मीटर 24 मीटर
(x) 189 मीटर से अधिक किन्तु 210 मीटर से अनधिक	210 मीटर 27 मीटर
(xi) 210 मीटर से अधिक	30 मीटर

टिप्पण 1:—"संक्रमण क्षेत्र" वह क्षेत्र है जो प्रागमन फनल के किनारे से तथा प्रत्येक प्रागमन क्षेत्र के भीतरी किनारे पर प्रारम्भ होने वाली रेखा से, जो अवतरण की दिशा में रन-वे की मध्यरेखा के समानान्तर खींची गई है, किसी विनिर्दिष्ट तल से नीचे, ऊपर और बाहर की ओर उल्लेख्य रूप में फैला है।

टिप्पण 2:—"विमान क्षेत्र" निर्देश बिन्दु वह नियत बिन्दु है, जो अवतरण क्षेत्र के ज्यामितीय केन्द्र पर या उसके निकट क्षेत्रीय समतल पर स्थापित किया जाता है।

टिप्पण 3:—"ऊँचाई" या "अपेक्षित तल" किसी बिन्दु या तल की वह ऊर्ध्वाकार दूरी है जो मध्य समुद्र तल से पृथ्वी की सतह तक मापी जाती है।

टिप्पण 4:—"प्रागमन फनल", "रन-वे पट्टी" और "संक्रमण क्षेत्र" के विवरण के लिए इस अधिसूचना का उपाबंध 4 देखिए।

उपाबंध 3

रन-वे की दिशा, रन-वे के छोर पर के उत्पात और ए और पी उत्पात उपस्थित करने वाले हवाई घट्टों की सूची।

क्रम सं०	हवाई घट्टा	ए और पी उत्पात (मीटर)	रन-वे सं०	रन-वे के छोर पर के उत्पात (मीटर)	टिप्पण
1	2	3	4	5	6
1.	अहमदाबाद	55	14	54	
			32	56	
			05	54	
			23	56	
2.	अगरतला	14	05	12	
			23	14.5	
			18	13.5	
			36	13.5	
3.	अकोला	305	10	303	
			28	304	
4.	अमृतसर	229	07	229	
			25	230	
			16	230	
			34	229	
5.	औरंगाबाद	581	09	582	
			27	573.5	
6.	बेलगाम	758	08	755	
			26	747	
7.	बेसूरघाट	24	09	24	
			27	23.5	
8.	बंगलौर	888	09R	875	
			27L	881	
			09L	876	
			27R	882.5	
9.	बड़ोदा	37	04	36.5	
			22	38.5	
			09	36.5	
			27	36.5	
10.	बेहाला	2.6	18	3.0	
			36	3.5	
11.	भावनगर	5.4	07	11	
			25	6	

1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
12. भोपाल	523		06	522.5		24. बिबूगढ़		109.5	05	109	
			24	521					23	109.5	
			12	521.5							
			30	523							
13. भुवनेश्वर	45		05	33		25. गीहाटी	48		03	49	
			23	41.5					21	48	
			14	38							
			32	37		26. गया	110		10	108	
14. मुज	78.5		05	81.5					28	115.5	
			23	74.5					01	109	
			11	79					19	111	
			29	77.5							
15. बिलासपुर !	274		06	270		27. हैदराबाद	531		09	530	
			24	282					27	522	
			17	276					14	531	
			35	269					32	528	
16. बम्बई (मुह)	3		08	5		28. इन्दौर	561		07	563.5	
			26	2.5					25	559.5	
			04	2.5							
			22	2.5							
			16	2.5		29. जबलपुर	495		06	480.8	
			34	2.5					24	494.5	
17. बम्बई (सायनामुज)	8		09	4					18	492	
			27	10					36	493	
			14	11							
			32	7.5		30. जयपुर	385		15	389.5	
			05	4					33	384.4	
			23	9					09	383.7	
									27	381.3	
18. कलकत्ता	5.3		01L	4.8		31. कांसी	236		16	236.5	
			19R	5					33	236.5	
			01R	5							
			19L	5		32. सरसुगुडा	228		06	228.20	
			07	4					24	229.14	
			25	4							
19. चकुलिया	129		08	135		33. फैजाबाद	27.5		03	28.5	
			26	132					21	27.5	
			17	130							
			35	127		34. कामलपुर	39		01	45	
20. कोयम्बटूर	398		05	402					19	41	
			23	391							
21. कूच बिहार	41.5		04	41.5		35. कांठला	29		05	29	
			22	41.5					23	29	
22. दिल्ली (पालम)	227		10	219		36. कानपुर	125		10	125	
			28	236.5					28	124.5	
			09	220							
			27	229		37. केसोद	49.5		05	50.5	
			15	224					23	50.5	
			33	232					18	50	
23. दिल्ली (सफरखर्ग)	212		12	215					36	52.5	
			30	212							

1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
38. खजुराहो	216		01	222		58. पोर्ट ब्लेयर		6	04	3.66	
			19	209					22	17.8	
39. कोल्हापुर	607		07	609.6		59. रायपुर	313		08	309	
			25	605.6					24	316	
40. कोटा	273		08	272		60. राजमन्वरी	45		05	34	
			26	272.5					23	46	
41. कुल्ह	1084		16	1089		61. राजकोट	134		05	133	
			34	1088					23	128.5	
42. खोवाई	29		18	26					14	130	
			36	27					32	133.5	
43. ललितपुर	367		10	368.5		62. रांची	646		13	654	
			28	363					31	632.5	
44. लीलाबाड़ी	100.2		04	101.5		63. सतना	319		11	316.5	
			22	101.5					29	316	
45. लखनऊ	122		09	122		64. सोला पुर	481		15	478.5	
			27	122					33	478	
			01	122		65. सिलचर	102		06	98.5	
			19	123					24	107.5	
46. मद्रास	10.5		07	12		66. शिवरापल्ली	85		15	84	
			25	15.5					33	85	
			12	9					09	88	
			30	13					27	84	
47. मधुरै	136.30		09	140		67. तंजौर	76		14	77	
			27	130					32	70.5	
			13	138.5					07	76.5	
			31	136					25	74.5	
48. मालवा	24		11	24		68. तिरुपति	103		08	105.5	
			29	23.5					26	101.2	
49. मुजफ्फरपुर	53		11	53		69. तुलीहाल (इम्फल)	774.5		04	773.5	
			29	53					22	775	
50. मीसूर	713		05	720		70. उदयपुर	509		08	511.5	
			23	710					26	508	
			09	717.5		71. वाराणसी	80		09	80	
			27	708					27	80	
51. नागपुर	308.5		09	309		72. विजयवाड़ा	21		08	25	
			27	301					26	21.5	
			14	315		73. विशाखापत्तनम	3		05	4	
			32	307					23	2.5	
52. पानागढ़	73		15	71					09	4	
			33	73					27	2.5	
53. पन्ना	425		17	435.80					18	4	
			35	410.35					36	4	
54. पासीचाट	155.6		17	156.5		74. बारंगल	285		15	290	
			35	153					33	276.5	
55. पटना	51		07	52					09	289	
			25	52					27	280.5	
56. पल्लनगर	233		10	234		75. मंगलौर	102		09	89	
			28	234					27	97	
57. पोरबन्दर	5		09	6.7							
			27	4.5							

MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION

New Delhi, the 15th March, 1979

G.S.R. 516.—In exercise of the powers conferred by section 9A of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), the Central Government, being of opinion that it is necessary and expedient so to do for the safety of aircraft operations, hereby direct that—

(i) no building or structure shall be constructed or erected, or no tree shall be planted, on any land within the limits specified in Annexure I to this notification in respect of the aerodromes listed in Annexure III to this notification and where there is any building, structure or tree on such land, the owner or the person having control of such building, structure or tree shall demolish such building or structure or, as the case may be, cut such trees forthwith but not later than a period of one month from the date of publication of this notification in the Official Gazette ;

(ii) no building or structure higher than the height specified in Annexure II to the notification shall be constructed or erected or no tree which is likely to grow or ordinarily grows higher than the height specified in the said Annexure II, shall be planted, on any land within a radius of twenty kilometres from the aerodrome reference point (ARP) of the aerodromes listed in Annexure III to this notification excluding the land covered by Annexure I to this notification and where the height of any building or structure or tree on such land is higher than the height specified in the said Annexure II, the owner or the person having control of such building, structure, or tree shall forthwith but not later than a period of one month from the date of publication of this notification in the Official Gazette, reduce the height thereof so as not to exceed the specified height.

ANNEXURE I

The land enclosed in approach funnels of the runway with a maximum distance of 360 metres, measured from each runway and along extended centre line of the runway.

Note 1. In this Annexure, "approach funnel" in the case of an instrument runway means the area in the shape of an isosceles trapezium having the longer parallel side 4800 metres long (2400 metres on either side of the extended centre-line of the runway) and smaller parallel side 300 metres long (150 metres on either side of the extended centre-line of the runway) where the smaller and longer parallel sides are placed at a distance of 60 metres and 15060 metres, respectively, from the end of the runway and at right angles to the extended centre-line.

Note 2. In the case of a non-instrument runway, the approach funnel means the area in the shape of an isosceles trapezium having the longer parallel side 1800 metres long (900 metres on either side of the extended centre-line of the runway) and smaller parallel side 180 metres long (90 metres on either side of the extended centre-line of the runway), where the smaller and longer parallel sides are placed at a distance of 60 metres and 6540 metres, respectively, from the end of the runway and at right angles to the extended centre-line. Thereafter, the trapezium is followed by a contiguous rectangular area of that width for the remainder of the length upto a distance of 15060 metres from the end of runway.

Note 3. An instrument runway is a runway served by visual and non-visual aid or aids providing atleast directional guidance adequate for a straight-in-approach and intended for the operation of aircraft using instrument approach procedures.

ANNEXURE II

(a) The land enclosed in the "approach funnels" of all runways where distances are measured from each end of the runway, along extended centre-line of the runway.

Area	Maximum permissible height above the elevation of nearest runway end.
1	2
(i) More than 360 metres but not exceeding 510 metres	6 metres
(ii) More than 510 metres but not exceeding 660 metres	9 metres

1	2
(iii) More than 660 metres but not exceeding 810 metres	12 metres
(iv) More than 810 metres but not exceeding 960 metres	15 metres
(v) More than 960 metres but not exceeding 1110 metres	18 metres
(vi) More than 1110 metres but not exceeding 1260 metres	21 metres
(vii) More than 1260 metres but not exceeding 1410 metres	24 metres
(viii) More than 1410 metres but not exceeding 1560 metres	27 metres
(ix) More than 1560 metres	30 metres

(b) The land enclosed in the "transitional area" of all runways at an aerodrome listed in the Annexure III of this notification where distances are measured from the associated runway strip and the edge of the associated "approach funnels", forming the inner boundary of the "transitional area" and along a line at right angles to the centre-line of the runway.

Distance from the inner boundary of the "transitional area" specified above	Maximum permissible height above the elevation of the ARP
(i) Upto a distance of 21 metres	Nil
(ii) More than 21 metres but not exceeding 42 metres	3 metres
(iii) More than 42 metres but not exceeding 63 metres	6 metres
(iv) More than 63 metres but not exceeding 84 metres	9 metres
(v) More than 84 metres but not exceeding 105 metres	12 metres
(vi) More than 105 metres but not exceeding 126 metres	15 metres
(vii) More than 126 metres but not exceeding 147 metres	8 metres
(viii) More than 147 metres but not exceeding 168 metres	21 metres
(ix) More than 168 metres but not exceeding 189 metres	24 metres
(x) More than 189 metres but not exceeding 210 metres	27 metres
(xi) More than 210 metres	30 metres

Note 1.—The "transitional area" is an area which is below a specified surface sloping upwards and outwards from the edge of the approach funnel and from a line originating at the end of the inner edge of each approach area, drawn parallel to the runway centre-line in the direction of landing.

Note 2.—"Aerodrome reference point" is a designated point, which is established in the horizontal plane at or near the geometric centre of the landing area.

Note 3.—“Elevation” or a “Reduced Level” is the vertical distance of a point or a level, on or affixed to the surface of the earth, measured from mean sea level.

Note 4.—For a description of “approach funnel” “runway strip” and “transitional area”, see diagram in Annexure IV to this notification.

ANNEXURE III


List of aerodromes, indicating runway directions, runway and elevations and ARP elevations.

Sl. No.	Aerodrome	ARP Elevation (metres)	Runway No.	Runway End (Elevation (metres))	Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	Ahmedabad	55	14	54	
			32	56	
			05	54	
			23	56	
2.	Agartala	14	05	12	
			23	14.5	
			18	13.5	
			36	13.5	
3.	Akola	305	10	303	
			28	304	
4.	Amritsar	229	07	229	
			25	230	
			16	230	
			34	229	
5.	Aurangabad	581	09	582	
			27	573.5	
6.	Belgaum	758	08	755	
			26	747	
7.	Balurghat	24	09	24	
			27	23.5	
8.	Bangalore	888	09R	875	
			27L	881	
			09L	876	
			27R	882.5	
9.	Baroda	37	04	36.5	
			22	38.5	
			09	36.5	
			27	36.5	
10.	Behala	2.6	18	3.0	
			36	3.5	
11.	Bhavnagar	5.4	07	11	
			25	6	
12.	Bhopal	523	06	522.5	
			24	521	
			12	521.5	
			30	523	
13.	Bhubaneswar	45	05	33	
			23	41.5	
			14	38	
			32	37	
14.	Bhuj	78.5	05	81.5	
			23	74.5	
			11	79	
			29	77.5	
15.	Bilaspur	274	06	270	
			24	282	
			17	276	
			35	269	


1	2	3	4	5	6
16.	Bombay (Juhu)	3	08	5	
			26	2.5	
			04	2.5	
			22	2.5	
			16	2.5	
			34	2.5	
17.	Bombay (Santacruz)	8	09	4	
			27	10	
			14	11	
			32	7.5	
			05	4	
			23	9	
18.	Calcutta	5.3	01L	4.8	
			19R	5	
			01R	5	
			19L	5	
			07	4	
			25	4	
19.	Chakulia	129	08	135	
			26	132	
			17	130	
			35	127	
20.	Coimbatore	396	05	402	
			23	391	
21.	Cooch-Behar	41.5	04	41.5	
			22	41.5	
22.	Delhi (Palam)	227	10	219	
			28	236.5	
			09	220	
			27	229	
			15	224	
			33	232	
23.	Delhi (Safdarjung)	212	12	215	
			30	212	
24.	Dibrugarh	109.5	05	109	
			23	109.5	
25.	Gauhati	48	03	49	
			21	48	
26.	Gaya	110	10	108	
			28	115.5	
			01	109	
			19	111	
27.	Hyderabad	531	09	530	
			27	522	
			14	531	
			32	528	
28.	Indore	561	07	563.5	
			25	559.5	
29.	Jabalpur	495	06	480.8	
			24	494.5	
			18	492	
			36	493	
30.	Jaipur	385	15	389.5	
			33	384.4	
			09	383.7	
			27	381.3	
31.	Jhansi	236	15	236.5	
			33	236.5	
32.	Jharsuguda	228	06	228.20	
			24	229.14	
33.	Kailashahar	27.5	03	28.5	
			21	27.5	

1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
34. Kamalpur .		39	01 19	45 41		54. Passighat .		155.5	17 35	156.5 153	
35. Kandla		29	05 23	29 29		55. Patna .		51	07 25	52 52	
36. Kanpur .		125	10 28	125 124.5		56. Pantnagar .		233	10 28	234 234	
37. Keshod .		49.5	05 23 18 36	50.5 50.5 50 52.5		57. Porbandar		5	09 27	6.7 4.5	
38. Khajuraho .		216	01 19	222 209		58. Port Blair .		6	04 22	3.66 17.8	
39. Kolhapur .		607	07 25	609.6 605.6		59. Raipur .		313.6	06 24	309 316	
40. Kota .		273	08 26	272 272.5		60. Rajahmundry		45	05 23	34 46	
41. Kulu .		1084	16 34	1089 1088		61. Rajkot		134	05 23 14 32	133 128.5 130 133.5	
42. Khowai .		29	18 36	26 27		62. Ranchi .		646	13 31	654 632.5	
43. Lalitpur .		367	10 28	368.5 363		63. Satna .		319	11 29	316.5 316	
44. Lilabari .		100.2	04 22	101.5 101.5		64. Sholapur .		481	15 33	478.5 478	
45. Lucknow .		122	09 27 01 19	122 122 122 123		65. Silchar .		102	06 24	98.5 107.5	
46. Madras .		10.5	07 25 12 30	12 15.5 9 13		66. Tiruchirapalli		85	15 33 09 27	84 85 88 84	
47. Madurai .		136.30	09 27 13 31	140 130 138.5 136		67. Tanjore		76	14 32 07 25	77 70.5 76.5 74.5	
48. Malda .		24	11 29	24 23.5		68. Tirupati .		103	08 26	105.5 101.2	
49. Muzaffarpur .		53	11 29	53 53		69. Tullhal (Imphal)		774.5	04 22	773.5 775	
50. Mysore .		713	05 23 09 27	720 710 717.5 708		70. Udaipur .		509	08 26	511.5 508	
51. Nagpur .		308.5	09 27 14 32	309 301 315 307		71. Varanasi .		80	09 27	80 80	
52. Panagarh .		73	15 33	71 73		72. Vijayawada .		21	08 26	25 21.5	
53. Panna .		425	17 35	435.80 410.35		73. Visakhapatnam		3	05 23 09 27 18 36	4 2.5 4 2.5 4 4	
						74. Warangal .		285	15 33 09 27	290 276.5 289 280.5	
						75. Mangalore .		102	09 27	89 97	

INSTRUMENT RUNWAY



NON-INSTRUMENT RUNWAY



पूर्ति और पुनर्वासि मंत्रालय

(पुनर्वासि विभाग)

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1979

गुप्त पत्र

सांकांनि० 517.—भारत के राजपत्र के भाग II खण्ड 3 के उपखण्ड (1) दिनांक 29 अप्रैल, 1978 के पृष्ठ 998-999 पर प्रकाशित भारत सरकार, पूर्ति और पुनर्वासि मंत्रालय (पुनर्वासि विभाग) की दिनांक 22 अप्रैल, 1978 की अधिसूचना संख्या सांकांनि०-575, पृष्ठ 998 पर अनुसूची के कालम 1 में "सहायक संरक्षण अधिकारी" के स्थान पर "सहायक भू-संरक्षण अधिकारी" पढ़ा जाए।

[संख्या 11(24)/77-प्रशा०-3]

सीहन लाल मेदिराटा, प्रवर सचिव

MINISTRY OF WORKS, HOUSING, SUPPLY AND

REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 22nd March, 1979

CORRIGENDUM

G.S.R. 517.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Supply and Rehabilitation (Department of Rehabilitation) No. GSR-575 dated the 22nd April, 1978 published on pages 998-999 of the Gazette of India. Part-II, Section 3, Sub-Section (i) dated the 29th April, 1978 at page 998, in the Schedule, in column 1 for "Assistant Conservation Officer" read "Assistant Soil Conservation Officer".

[No. 11 (24)/77-Admn.III]

S. L. MEDIRATTA, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1979

सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 518.—केंद्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपना यह समाधान हाँ जाना पर कि ऐसा करना लोकोहित में आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं. 215-सीमा-शुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976 में निम्नीलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना उपाबद्ध सारणी में, मद (1) और उरास संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नीलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) कनस्तरों सहित विभिन्न क्षमता वाले द्रव नाइट्रोजन प्रशीतक और फ्लास्क"।

[सं. 84/फ्र. सं. 355/30/79-सी. शु. 1]

जोसेफ डोमिनिक, प्रवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 7th April, 1979

CUSTOMS

G.S.R. 518.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 215-Customs dated the 2nd August, 1976, namely :—

In the Table annexed to the said notification for item (i) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"(i) Liquid nitrogen refrigerators and flasks of different capacities with canisters."

[No. 84 F. No. 355/30/79-Cus. I]

JOSEPH DOMINIC, Under Secy.

1337-21131
4/1/80

